

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 24—जनवरी 30, 2015 (माघ 4, 1936)

No. 4] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 24—JANUARY 30, 2015 (MAGHA 4, 1936)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के
संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public
Service Commission, the Indian Railways and by Attached and Subordinate Offices of the
Government of India]

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली — 110 124, दिनांक 18 दिसम्बर 2014

सं. 358—जी.ई.1/13—2006—गैर-भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा सेवा के अधिकारी सुश्री कौशल्या सभनानी, सीनियर प्रीसिपल प्राईवेट सेक्रेटरी दिनांक 30.11.2014 (अपराह्न) से सेवानिवृत्त हो चुके हैं ।

सुधा राजन
सहा. नियंत्रक एवं
महालेखा परीक्षक (कार्मिक)

सं. 357—जी.ई.1/13—2006—अधिकारियों भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा के निम्नलिखित अधिकारी उनके नाम के सामने दर्शायी गई तिथि से सेवानिवृत्त हो चुके हैं —

क्रम संख्या	अधिकारियों के नाम तथा पदनाम सर्वश्री/सुश्री	सेवानिवृत्त की तिथि
1.	आर. श्रीधरा, निदेशक रिपोर्ट, कार्यालय प्रधान निदेशक, वा. ले. प. एवं पदेन सदस्य ले.प.बोर्ड, बैंगलुरु	दिनांक 30.11.2014 (अपराह्न)
2.	सुश्री पुष्पा देवी, वरी. उप-महालेखाकार वर्क्स, कार्यालय महालेखाकार ले.प., जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, शाखा – जम्मू	दिनांक 30.11.2014 (अपराह्न)

सुधा राजन
सहा. नियंत्रक एवं
महालेखा परीक्षक (कार्मिक)

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान

जयपुर, दिनांक 2 जनवरी 2015

सं. प्रशा.-II/गजट नोटिफिकेशन/आर-12063/122/2014—निम्नलिखित समूह 'ब' राजपत्रित अधिकारी उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक से अधिवार्षिकी पर शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं:—

सर्वश्री

- | | | |
|----|---|---|
| 1. | बाबू लाल गुप्ता
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी | 31.12.2014 (अपराह्न) से अधिवार्षिकी पर
सेवानिवृत्त |
| 2. | पदम चन्द गाँधी
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी | 31.12.2014 (अपराह्न) से अधिवार्षिकी पर
सेवानिवृत्त |

ह./— अपठनीय
उपमहालेखाकार (प्रशासन)

कार्यालय महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान

जयपुर, दिनांक 2 जनवरी 2015

सं. प्रशा.- II/गजट नोटिफिकेशन/आर-12063/60/2014—निम्नलिखित समूह 'ब' राजपत्रित अधिकारी उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक से अधिवार्षिकी पर शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं:—

सर्वश्री

- | | | |
|----|---|--|
| 1. | श्री हर चरण सिंह दुआ
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी | 31.12.2014 (अपराह्न) से अधिवार्षिकी पर सेवानिवृत्त |
| 2. | श्री रत्तन लाल भट्ट
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (वा.) | 31.12.2014 (अपराह्न) से अधिवार्षिकी पर सेवानिवृत्त |

ह./— अपठनीय
उपमहालेखाकार (प्रशासन)

भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र

मुंबई-85, दिनांक 5 जनवरी 2015

सं. पीडी/4(4)/2014-भर्ती-III/2015/139—अध्यक्ष, पी. एवं सी. डी., भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, श्री नटराजन श्रीनिवासन, निजी सचिव (गैर-सचिवालयीन) को दिनांक 17.10.2014 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक रु. 9,300—34,800/— के वेतन बैंड-2 तथा ग्रेड वेतन रु. 4,800/— में इस अनुसंधान केंद्र में वरिष्ठ निजी सचिव के पद पर नियुक्ति रूप से नियुक्त करते हैं।

मुत्तुलक्ष्मी जे.
सहायक कार्मिक अधिकारी

दिनांक 6 जनवरी 2015

सं. पीडी/4(6)/2007-भर्ती-III (खंड II)/2015/161—अध्यक्ष, पी. एवं सी. डी., भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, श्रीमती राधा लक्ष्मी जयरामन, आशुलिपिक श्रेणी-I को दिनांक 01.12.2014 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक रु. 9,300—34,800/- के वेतन बैंड-2 तथा ग्रेड वेतन रु. 4,600/- में इस अनुसंधान केंद्र में निजी सचिव (गैर-सचिवालयीन) के पद पर नियुमित रूप से नियुक्त करते हैं।

मुत्तुलक्ष्मी जे.
सहायक कार्मिक अधिकारी

सं. पीडी/4(6)/2007-भर्ती-III (खंड II)/2015/163—अध्यक्ष, पी. एवं सी. डी., भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, श्री कुप्पुस्वामी सेतुरामन, आशुलिपिक श्रेणी-I को दिनांक 01.12.2014 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक रु. 9,300—34,800/- के वेतन बैंड-2 तथा ग्रेड वेतन रु. 4,600/- में इस अनुसंधान केंद्र में निजी सचिव (गैर-सचिवालयीन) के पद पर नियुमित रूप से नियुक्त करते हैं।

मुत्तुलक्ष्मी जे.
सहायक कार्मिक अधिकारी

सं. पीडी/4(6)/2007-भर्ती-III (खंड II)/2015/165—अध्यक्ष, पी. एवं सी. डी., भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, श्रीमती लता एस. अय्यर, आशुलिपिक श्रेणी-I को दिनांक 01.12.2014 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक रु. 9,300—34,800/- के वेतन बैंड-2 तथा ग्रेड वेतन रु. 4,600/- में इस अनुसंधान केंद्र में निजी सचिव (गैर-सचिवालयीन) के पद पर नियुमित रूप से नियुक्त करते हैं।

मुत्तुलक्ष्मी जे.
सहायक कार्मिक अधिकारी

सं. पीडी/4(6)/2007-भर्ती-III (खंड II)/2015/166—अध्यक्ष, पी. एवं सी. डी., भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, श्रीमती पार्वती गणेश, आशुलिपिक श्रेणी-I को दिनांक 01.12.2014 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक रु. 9,300—34,800/- के वेतन बैंड-2 तथा ग्रेड वेतन रु. 4,600/- में इस अनुसंधान केंद्र में निजी सचिव (गैर-सचिवालयीन) के पद पर नियुमित रूप से नियुक्त करते हैं।

मुत्तुलक्ष्मी जे.
सहायक कार्मिक अधिकारी

परमाणु ऊर्जा विभाग

मुंबई-400 001, दिनांक 5 जनवरी 2015

सं. 1/6(4)2010-पावर/140—राष्ट्रपति, इस विभाग के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों/इंजीनियरों, जो न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (एनपीसीआईएल) में स्थायी प्रतिनियुक्ति पर हैं, को दिनांक 01.07.2014 से प्रभावी रूप में अगले आदेश होने तक स्थानापन्न आधार पर उनके सामने उल्लिखित ग्रेड एवं निम्न विवरण के अनुसार नियुक्त करते हैं :—

क्र. सं.	नाम	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नत ग्रेड	वेतन बैंड (रु.)	ग्रेड वेतन (रु.)	इकाई
	(सर्वश्री)					
1.	पी. के. गुप्ता	वैज्ञानिक अधिकारी/ई	वैज्ञानिक अधिकारी/एफ	37,400—67,000/-	8,700/-	टीएपीएस 1 एवं 2
2.	एस. हलदर	वैज्ञानिक अधिकारी/ई	वैज्ञानिक अधिकारी/एफ	37,400—67,000/-	8,700/-	टीएपीएस 1 एवं 2

2. उपरोक्त क्रम सं. 1 एवं 2 के अधिकारियों ने दिनांक 01.07.2014 (पूर्वाह्न) से प्रभावी रूप में अपने द्वारा धारित निचले पद का कार्यभार त्याग दिया है।

ए. सुकुमारन
अवर सचिव

भारी पानी बोर्ड

मुंबई-400 094, दिनांक 24 दिसम्बर 2014

सं. भापाबो/भर्ती/1(8)-म/2014/41—मुख्य कार्यकारी, भारी पानी बोर्ड, श्री के. एस. आर. सी. मूर्ती, आशुलिपिक ग्रेड-1 (पीबी-2, रु. 9,300—34,800/- + ग्रेड वेतन रु. 4,600), एन. एफ. सी., हैदराबाद को दिनांक 21.10.2014 के (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक वेतन बैंड-2, रु. 9,300—34,800/- + ग्रेड वेतन रु. 4,800/- में भारी पानी संयंत्र (मणुगुरु) में सहायक कार्मिक अधिकारी के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं।

के. एस. पिल्लै
प्रशासन अधिकारी-III

दिनांक 7 जनवरी 2015

सं. भापाबो/भर्ती/4(15)/2014/112—राष्ट्रपति, भापासं, मणुगुरु के वैज्ञानिक सहायक/ई, श्री जव्वादि वैकट शिव राम कृष्ण को वेतन बैंड रु. 15,600—39,100/— तथा ग्रेड वेतन रु. 5,400/— को दिसम्बर 1, 2013 के पूर्वाह्न से, आगामी आदेशों तक, उसी वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन रु. 5,400/— में तकनीकी अधिकारी/सी के रूप में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हैं।

के. एस. पिल्लै
प्रशासन अधिकारी—III

क्रय और भंडार निदेशालय

मुंबई—400 094, दिनांक 5 जनवरी 2015

सं. क्रमनि/11004/भर्ती—निदेशक, क्रय और भंडार निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, ने श्री एस. एस. वेदान्तवार, सहायक लेखाकार (वेतन बैंड—2, रु. 9,300—34,800/— + ग्रेड वेतन रु. 4,600/—), भापाअ केन्द्र, मुंबई को दिनांक 16 दिसम्बर, 2014 पूर्वाह्न से अगला आदेश होने तक कोलकाता क्षेत्रीय लेखा एकक, क्रमनि, कोलकाता में सहायक लेखा अधिकारी (वेतन बैंड—2, रु. 9,300—34,800/— + ग्रेड वेतन रु. 4,800/—) के पद पर नियुक्त करते हैं।

एस. वाय. कांबळे
प्रशासन अधिकारी—III

महानिदेशक नागर विमानन का कार्यालय

नई दिल्ली—110003, दिनांक 6 जनवरी 2015

सं. ए—32013/20/2009—स्था. II—राष्ट्रपति जी, श्रीमती सुवृता सक्सेना की तदर्थ नियुक्ति की अवधि को वेतन बैंड—3, 15,600—39,100/— रु. तथा ग्रेड वेतन 7,600/— रु. के वेतनमान में तारीख 09.02.2014 से 28.09.2014 तक डी जी सी ए में उपनिदेशक प्रचालन के रूप में नियमित करते हैं।

गोपाल सिंह
उपनिदेशक प्रशासन

सं. ए—32013/04/2013—स्था. II—राष्ट्रपति जी, श्री मनीष कुमार की तदर्थ नियुक्ति को वेतन बैंड—4, 37,400—67,000/— रु. तथा ग्रेड वेतन 8,700/— रु. के वेतनमान में तारीख 06.03.2014 से 07.08.2014 तक डी जी सी ए में विमान सुरक्षा निदेशक के रूप में नियमित करते हैं।

गोपाल सिंह
उपनिदेशक प्रशासन

सं. ए—32013/06/2014—स्था. II—संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रपति जी, श्री जी. राजशेखर जो इस समय तदर्थ आधार पर उपमहानिदेशक का पद धारण किए हुए हैं, को वेतन बैंड—4, 37,400—67,000/— रु. तथा ग्रेड वेतन 8,900/— रु. के वेतनमान में तारीख 28 नवम्बर, 2014 के पूर्वाह्न से तथा अगले आदेशों के होने तक महानिदेशक नागर विमानन कार्यालय में नियमित आधार पर उपमहानिदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

गोपाल सिंह
उपनिदेशक प्रशासन

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

कानपुर—208002, दिनांक 7 जनवरी 2015

सं०: 560(3)/5949—एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कोई प्रतिकूल कारण न दर्शाये जाने पर कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत तीन महीने की अवधि समाप्त होने पर निम्नलिखित कम्पनियों का नाम रजिस्टर से काट दिया जायेगा तथा कम्पनी विघटित कर दी जायेगी :—

क्रम संख्या	कंपनी का नाम	सिन नंबर	एस आर एन
1	नैक्काटेल प्राइवेट लिमिटेड	U01403UP2012PTC048935	B95360061
2	अमरावती हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड	U45201UP2004PTC029146	C06279541

क्रम संख्या	कंपनी का नाम	सिन नंबर	एस आर एन
3	लीवरगेड शेयर ट्रेड्स एण्ड ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड	U65921UP2007PTC032780	C19382647
4	मनी न्यूस सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	U22100UP2011PTC043537	C32340150
5	वसुंधरा टेलीकाम प्राइवेट लिमिटेड	U64200UP2013PTC059944	C33395567
6	राठौर सिक्योरिटी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	U74920UP2008PTC035395	C33958760
7	प्रेस्टिज कर्लस सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	U24221UP2002PTC026776	C34393942
8	एक्यूसिस सेल्स एण्ड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U52100UP2011PTC047907	C34439166
9	जय अम्बे मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U74999UP2004PTC028831	C34521526
10	स्वरूप इंफ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	U45400UP2007PTC033409	C34654012
11	सन सरफेक्ट्रेंस प्राइवेट लिमिटेड	U24241UP1999PTC024909	C34946525
12	मधुर आयल्स प्राइवेट लिमिटेड	U15141UP1984PTC006501	C34963124
13	वाई पी रोलिंग्स मिल्स प्राइवेट लिमिटेड	U27100UP2013PTC060355	C34976449
14	आईकान बिल्डिंग एण्ड ब्रिज कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	U45203UP2004PTC028878	C35116417
15	जी एल इंफ्राडेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	U70102UP2011PTC046155	C35127885
16	गोपाला शेल्टर्स डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	U45200UP2006PTC032562	C35367671
17	एसीडीए क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड	U80904UP2012PTC048549	C35543826
18	पीएमडी ईसर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2012PTC050804	C35569961
19	एसडीबी कार्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2012PTC049993	C35618198
20	उद्यान इन्फो सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	U93030UP2012PTC049161	C35631381
21	वीडीएम डेयरी एण्ड एलाइड लिमिटेड	U15200UP2008PLC036093	C35694108
22	रीडेक्स टेक्नोलॉजिसेस प्राइवेट लिमिटेड	U72300UP2011PTC043931	C35731207
23	संदीप होम एप्लायंसेस प्राइवेट लिमिटेड	U74900UP2008PTC034514	C35739705
24	ब्राइटस्टार्स नेटमार्क प्राइवेट लिमिटेड	U93000UP2010PTC039755	C35756642
25	पेस लाजिस्टिक्स एण्ड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U74999UP2006PTC031590	C35874320
26	एयर्स स्टॉक ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड	U74900UP2010PTC042142	C35906080
27	एश्योर्ड वीजन मल्टीट्रेड प्राइवेट लिमिटेड	U74900UP2009PTC038808	C35953090
28	कैसर इण्डिया एलाइनमार्ट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2011PTC046748	C35980945
29	तवाख रिटेल प्राइवेट लिमिटेड	U52100UP2012PTC053638	C35997576
30	वीएनएस इंफोसेल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	U72900UP2008PTC034519	C36083921
31	साईकृपा कार्मशियल सेल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2012PTC049674	C36092385
32	नवरतन होटल प्राइवेट लिमिटेड	U55204UP2011PTC046716	C36094910
33	सहिब हास्पिटैलिटी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	U55204UP2012PTC050233	C36109973
34	पुरषोत्तम सिनेमा प्राइवेट लिमिटेड	U32111UP1987PTC008765	C36168961
35	आईजीवी सेल्स प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2012PTC050791	C36419208
36	आदर्शसितारा रियल स्टेट इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड	U70102UP2012PLC051196	C36445138
37	फ्रॉन्सिस साफ्टवेयर एण्ड सेल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	U72900UP2007PTC034156	C36459303

क्रम संख्या	कंपनी का नाम	सिन नंबर	एस आर एन
38	वेल्थ राइस हीटेक फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड	U01403UP2010PLC040461	C36705218
39	प्रसूनको साफटेक सेल्युशन प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2012PTC050955	C36805661
40	याहवेह पेपर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U21098UP2013PTC055789	C36855153
41	ब्राइटफ्यूचर एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2012PTC051182	C36863975
42	पार्श्व होटल्स एण्ड रिसार्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U55204UP2009PTC039098	C36947711
43	एम ए आर एस टेलीएक प्राइवेट लिमिटेड	U29113UP1998PTC023495	C37160868
44	एमबीएन्ट इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2012PTC049700	C37187465
45	प्रताप मल्टीट्रेड प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2012PTC050296	C37258910
46	एस्टरफार्मा प्राइवेट लिमिटेड	U24232UP2005PTC030843	C37611084

एस पी कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

कानपुर-208002, दिनांक 7 जनवरी 2015

सं.: 560(5)/6000—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है :—

क्रम संख्या	कंपनी का नाम	सिन नंबर	एस आर एन
1	अक्षारी सेल्स एण्ड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2012PTC050202	C28890671
2	निभ इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड	U74900UP2010PTC041636	C29994068
3	पैक्टस इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड	U85191UP2012PTC049771	C30706592
4	श्रीजी आभूषण प्राइवेट लिमिटेड	U27310UP2010PTC040963	C30808067
5	एक्सक्लूसिव कंकरीट सेल्युशन प्राइवेट लिमिटेड	U45202UP2014PTC062378	C31197130
6	बुघीलाल संस होटल प्राइवेट लिमिटेड	U55204UP2013PTC056344	C31227226
7	सोविया साफटवेयर प्राइवेट लिमिटेड	U72300UP2009PTC036674	C31264864
8	मुद्रा बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड	U70102UP2012PTC052230	C31297054
9	हिकन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	U45200UP2007PTC032716	C31425747
10	विद्या साफटेक प्राइवेट लिमिटेड	U11101UP2007PTC034290	C31645500
11	आईडीआरसी कन्सल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2011PTC047752	C31768930
12	बी पाजीटिव मेडिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	U85191UP2010PTC041806	C31783194
13	एसपायर आउटसोर्सिंग सविसिंग प्राइवेट लिमिटेड	U74900UP2010PTC042535	C31799786
14	पावर फिनसेक कन्सल्टेन्सी प्राइवेट लिमिटेड	U93030UP2012PTC050089	C31912066
15	आदित्य इन्फ्रासिटी प्राइवेट लिमिटेड	U70102UP2012PTC050169	C32079147
16	सेज फिनकैप कन्सल्टेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U93000UP2008PTC035744	C32081234

क्रम संख्या	कंपनी का नाम	सिन नंबर	एस आर एन
17	जी वी सैलूनस प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2012PTC048406	C32081770
18	प्रयाग पेपर डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड	U51109UP1992PTC014820	C32151342
19	डी एस इन्फ्राप्लानर्स प्राइवेट लिमिटेड	U70102UP2013PTC056866	C32194722
20	इजी च्वाइस रिटेल प्राइवेट लिमिटेड	U52190UP2014PTC064032	C32599128
21	जे एम के फ्रोजन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड	U15112UP2010PTC039761	C32625535
22	सीरा पाउडर प्राइवेट लिमिटेड	U40102UP2013PTC056042	C32672701
23	बचत बाजार रिटेलर्स प्राइवेट लिमिटेड	U52100UP2012PTC050110	C32674129
24	एएसआर मल्टीएडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड	U74900UP2010PTC039174	C32699738
25	रायस एअर कंडीशनिंग प्राइवेट लिमिटेड	U52334UP1987PTC008840	C32703738
26	ए एल बी हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड	U85110UP2002PTC026786	C32715146
27	जे एम एक्सट्रूजन प्राइवेट लिमिटेड	U37109UP1982PTC005646	C32753659
28	बीआईपरएस नेटवर्क डसटा सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड	U70102UP1997PTC022085	C32690968
29	आर्यन शू एसेसरीज प्राइवेट लिमिटेड	U19201UP2002PTC026804	C32804700
30	आई टेकवर्ड सेल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2011PTC043955	C32809618
31	सिताबचंद प्रेम चंद प्राइवेट लिमिटेड	U51109UP1988PTC010320	C32854374
32	सामर्थ कन्सल्टेन्सी आईटी प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2011PTC044777	C32854879
33	नंदिनी डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड	U24297UP2007PTC033477	C32949687
34	खुशी एजेन्सीस प्राइवेट लिमिटेड	U74991UP2007PTC033479	C32951204
35	बीबीएस इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड	U45400UP2010PTC039776	C32987612
36	केकेडी फार्मा प्राइवेट लिमिटेड	U24100UP2014PTC061824	C33091604
37	न्यू सत्कार सेवा लिमिटेड	U55101UP2005PLC030063	C33106964
38	एस्पिरेंट मैनेजमेंट सर्विसिंग प्राइवेट लिमिटेड	U74900UP2009PTC037211	C33122995
39	पाथवे कन्सल्टेन्सीस प्राइवेट लिमिटेड	U72300UP2013PTC055891	C33166208
40	बीके सिटीडेवलपर्स एण्ड टेक्नोलाजिस प्राइवेट लिमिटेड	U74900UP2010PTC041946	C33221078
41	वाल्स एण्ड फिटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U29253UP2013PTC057531	C33236761
42	प्रसूनको होटल्स प्राइवेट लिमिटेड	U55101UP2009PTC037790	C33447913
43	आईपीटीएम एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड	U80904UP2009PTC038439	C33529629
44	नटराजदीप बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड	U45400UP2012PTC054288	C33607540
45	सी आर पी इन्टरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड	U51300UP2009PTC036874	C33921909
46	पुष्टि साफटेक प्राइवेट लिमिटेड	U93030UP2013PTC055230	C34029090

एस पी कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

चंडीगढ़, दिनांक 31 दिसम्बर 2014

सं. आरओसी/560(5)/एफटीई/2000—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियां विधित्त हो गई हैं। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही निम्नलिखित कम्पनियों का नाम काट दिया गया है:—

सीरियल नंबर	कंपनी नंबर	कम्पनी का नाम
1	16213	हिम एकडमी प्राइवेट लिमिटेड
2	30245	जीथर लाबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड
3	30818	धर्मपुर हेल्थ रिजोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
4	31373	राजा हाईड्रो पावर प्राइवेट लिमिटेड
5	31687	कामुन इनटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड
6	00111	टाप टरैक गारमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
7	00112	जाँयफुल स्टील फैब्रीकेटरस प्राइवेट लिमिटेड
8	31448	बद्दी ईनोवेशनज़ एण्ड टेक्नोलोजी प्राइवेट लिमिटेड
9	29536	बेआस प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
10.	05030	मोडेस्टो पौलीमर्ज प्राइवेट लिमिटेड
11.	29832	बालाजी ईम्बैडीड टेक्नोलौजी प्राइवेट लिमिटेड
12.	31269	ग्रोविन टच मारकिटींग प्राइवेट लिमिटेड
13.	16155	ग्लोब रिसोर्ट्स लिमिटेड
14.	31675	शमशी हाईडल प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
15.	31658	वरसाटाईल प्रिंट एण्ड पैक सालुशनज़ प्राइवेट लिमिटेड
16.	30941	हिमाचल टूलस एण्ड ट्रेनिंग प्राइवेट लिमिटेड
17.	31330	पराशर कन्स्ट्रक्शनज़ प्राइवेट लिमिटेड
18.	00195	श्री आनंद प्रिंटपैक प्राइवेट लिमिटेड
19.	31482	जय भरारु हाईडल प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
20.	31567	सेथु हाईड्रो प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
21.	27855	पनचिज एन बनचिज फूडज़ प्राइवेट लिमिटेड
22.	00002	सिरमौर इंजिनियरस एण्ड विल्डरज प्राइवेट लिमिटेड
23.	30725	धुआंगन पावर प्राइवेट लिमिटेड

एस. एन. तिवारी
सहायक रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज कम सहायक शासकीय समापक
हिमाचल प्रदेश

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

पुणे-4, दिनांक 7 जनवरी 2015

सं. क्रंपु/एफटीई/560(5)/2015/3289—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विधित्त हो गई हैं:—

क्र.सं.	सी आय एन	कम्पनी का नाम
1	U74999PN2005PTC021222	थ्रिविंग डेस्टिनेशन वेल्थ मॅनेजर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
2	U72900PN2008PTC131690	स्यल्फ सॉफ्टवेयर सोल्युशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
3	U24239PN2011PTC139105	सर्ल फार्मा प्रायव्हेट लिमिटेड
4	U80904PN2011PTC139427	वेरसिटी इंटरैक्टिव लेनिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
5	U74900PN2012PTC144204	प्रोव्हेंटेज ट्रेनिंग अँड एचआर कन्सल्टन्सी प्रायव्हेट लिमिटेड
6	U40108PN2012PTC144544	व्हेनुस पॉब्लिक प्रायव्हेट लिमिटेड
7	U72200PN2013PTC149116	सुंजु बिज़नेस सॉल्युशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
8	U65993MH1995PLC085788	अमृत कलश सेव्हिंग्स इन्व्हेस्टमेंट फयनास लिमिटेड
9	U45102PN1994PTC082691	मुला व्हॅली डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
10	U34300PN2012PTC143482	डुने टेक प्रायव्हेट लिमिटेड
11	U74900PN2008PTC132519	अल्फा सपिईस कंसल्टिंग सॉल्युशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
12	U85110PN1998PTC012590	तलेरा हॉस्पिटैलीटी प्रायव्हेट लिमिटेड
13	U15543PN2011PTC141026	पारीक अँक्वा प्रायव्हेट लिमिटेड
14	U74900PN2009PTC134582	शिवनेरी मॅनेजमेंट अँड फायनासियल कंसल्टन्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
15	U74900PN2012PTC145315	लाईफईजी एंटरप्राइजेस प्रायव्हेट लिमिटेड
16	U29219PN1993PTC072903	कंसोल कॉन्वेयर्स एँड सिस्टिम्स प्रायव्हेट लिमिटेड
17	U51909PN2004PTC019444	किर्ति एक्सिम प्रायव्हेट लिमिटेड
18	U74999PN2010PTC138107	राईड केअर एंटरप्राइजेस प्रायव्हेट लिमिटेड
19	U61100PN1983PTC029416	प्रेमचंद ट्रांसपोर्ट प्रायव्हेट लिमिटेड
20	U51909PN2003PTC017625	शूब ट्रेडिंग अँड मर्कटाईल प्रायव्हेट लिमिटेड
21	U74110PN2008PTC132944	डाईकोस लिगल सॉल्युशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
22	U74900PN2008PTC133092	कॅपेस पोर्टफोलिओ मॅनेजमेंट सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
23	U36912PN2013PTC149428	ग्लोबल पॉलिफाईबर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
24	U99999PN1982PTC027460	प्रेमचंद ईनव्हेस्टमेंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
25	U74999PN2010PTC135394	जिनी एनर्जी सॉल्युशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड

क्र.सं.	सी आय एन	कम्पनी का नाम
26	U72900PN2009PTC134116	सेपियन्स आयटि सॉल्युशनस प्रायव्हेट लिमिटेड
27	U74999PN2012PTC142515	फ्लुएंट प्रोफेशनल कंसलटंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
28	U15490PN2013PLC146696	मसकॉर्प फूड प्रोडक्टस् लिमिटेड
29	U52399PN2013PLC146649	मसकॉर्प लईफस्टाईल प्रोडक्टस् लिमिटेड
30	U72900PN2010PTC137871	पॅक वेस्ट नेटवर्क सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
31	U74900PN2010PTC136285	स्मिता इंटरनॅशनल बिजिनेस कंसल्टनसि सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
32	U01404PN2008PTC131978	रियल फ्रुट्स अँड फ़र्म्स प्रायव्हेट लिमिटेड
33	U25201PN2001PTC016376	प्लास्टिकोस पॉली प्रायव्हेट लिमिटेड
34	U29100PN2011PTC139521	महालक्ष्मी ऑटोकम्पोनेंटस प्रायव्हेट लिमिटेड
35	U31108PN2011PTC140031	महालक्ष्मी ईलेक्ट्रोप्लेट कोटींग प्रायव्हेट लिमिटेड
36	U65910PN1992PLC069256	शमोन् लिसिंग लिमिटेड
37	U18101PN2004PTC019265	ईव्हेशन टेक्सटाईल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
38	U63040PN2007PTC130388	फ्लायहाई मार्केटिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
39	U27204MH1970PTC014579	कोल्हापुर मेटल वर्क्स अँड रोलिंग मिल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
40	U45200PN2009PTC134881	कलिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेड
41	U72200PN2006PTC128376	बेनेलेक इंफोटेक सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
42	U72300PN2008PTC131861	थिंकिंगस्पेस टेक्नॉलॉजी प्रायव्हेट लिमिटेड
43	U85120PN1998PTC012720	फिनिक्स एड्वांस एंडोस्कोपी प्रायव्हेट लिमिटेड
44	U24299PN2006PTC022051	आर्टस् सॉफ्टवेअर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
45	U31909PN2006PTC128724	मल्टिवर्सिटी ईकोसिस प्रायव्हेट लिमिटेड
46	U72900PN2011PTC141094	ग्रेपवारे आईटी सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
47	U72900PN2011PTC138319	पाईनअपल इनोव्हेटिव सोल्यूशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
48	U24243MH1989PTC054590	अनंत सर्फेक्टन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
49	U99999MH1996PTC098419	अलोक स्पेशालिटी मशिन्स अँड कम्पोनेन्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
50	U27310PN2007PTC129978	आरसी व्हाईट मेटल कास्टिंग्स प्रायव्हेट लिमिटेड
51	U70101PN1997PTC105496	केबेको होम्स प्रायव्हेट लिमिटेड
52	U85110PN2003PTC018019	सिद्धिविनायक रुग्णालय कोरेगाव पीव्हीटि.एल्टीडी .
53	U65929MH1981PTC024796	श्री सप्तश्रिंगि इन्व्हेस्टमेंट पीव्हीटि.एल्टीडी .
54	U72200PN2009PTC134951	वेनुस टेलेरेडिओलॉजि अँड हेल्थकेअर सोल्यूशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड

क्र.सं.	सी आय एन	कम्पनी का नाम
55	U74900PN2005PTC021553	ग्रंडेउर गिफ्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
56	U31909PN2008PTC132603	ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड
57	U72900PN2007PTC130149	रॉयसन सिस्टिम्स प्रायव्हेट लिमिटेड
58	U28992PN2012PTC142491	डिएम्के इंडस्ट्रिज प्रायव्हेट लिमिटेड
59	U01111PN2007PTC130135	श्री शिव दत्ता अँगो प्रोडक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
60	U72400PN2010PTC137495	कोन्नेट इंफ्रा प्रायव्हेट लिमिटेड
61	U74900PN2007PTC131096	सिमूलोजिक एन्व्हायरॉन्मेंटल कंसल्टींग प्रायव्हेट लिमिटेड
62	U63022PN2002PTC017465	कन्हैया कोल्ड स्टोरेज अँड अँगो प्रोसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
63	U72900PN2010PTC136278	मिंड्स टेक्नॉलॉजिस प्रायव्हेट लिमिटेड
64	U36100PN2011PTC141085	डुरवुड पार्टिकल्स बोर्ड्स प्रायव्हेट लिमिटेड
65	U01122PN2010PTC137829	एजेके अँगो फुड्स प्रायव्हेट लिमिटेड
66	U01400PN2010PTC137828	अधि अँगो फुड्स प्रायव्हेट लिमिटेड
67	U01122PN2010PTC137833	एआरएन अँगो फुड्स प्रायव्हेट लिमिटेड
68	U01122PN2009PTC134338	अर्नव अँगो प्रोसेसींग प्रायव्हेट लिमिटेड
69	U01122PN2009PTC134337	अर्नव अँगो सेर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
70	U29197PN2008PTC131848	नेव्हेअफ एन्व्हायरॉन्मेंटल टेक्नॉलॉजिस प्रायव्हेट लिमिटेड
71	U25209PN1984PTC031824	शिव पॉल्यूमेर्स पीव्हीटि.एल्टीडी .
72	U01110PN2009PTC134288	आर. एन. अँगो प्रोसेसींग प्रायव्हेट लिमिटेड
73	U01110PN2009PTC134290	आर. एन. अँगो सेर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
74	U72200PN1999PTC013975	राज इंफोटेक (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड
75	U74900PN2012PTC143302	लोकमान्य मेडिकल स्टोर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
76	U45200PN2007PTC131102	मुगजा डेव्हलोपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
77	U36931PN2011PTC140323	अग्रावल्स प्रोकेलैन प्रायव्हेट लिमिटेड
78	U70200PN2013PTC149819	युनोटेरा ग्लोबल बिजनेस पार्क्स प्रायव्हेट लिमिटेड
79	U51909PN2012PTC145066	इंडिटेक मेडिकल सिस्टिम्स प्रायव्हेट लिमिटेड
80	U72900PN2006PTC022050	कॉगनॉसंटे नेटवर्क सोल्यूशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
81	U73100PN2001PTC015810	अयुर इंफॉमेटिक्स अँड रिसर्च प्रायव्हेट लिमिटेड
82	U01117PN2004PTC018895	सातारा कीसान अँगो प्रायव्हेट लिमिटेड
83	U36900PN2013PTC146594	अरिअद्रे होम्स डेको प्रायव्हेट लिमिटेड

क्र.सं.	सी आय एन	कम्पनी का नाम
84	U74999PN2006PTC128919	हॅपी डिल्स फायनासियल सेर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
85	U45200PN2009PTC133687	सिद्रम बिल्डर्स अण्ड डेव्हलोपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
86	U51909PN2010PTC136416	सशा मर्केटेर्स डेव्हलोपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
87	U74300PN2007PTC130937	टॉस ऑन्लाईन स्टुडिओ प्रायव्हेट लिमिटेड
88	U01122PN2008PTC132709	सुर्योदया फर्मेस प्रायव्हेट लिमिटेड
89	U51909PN2006PTC022208	अतिशा ट्रेडिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
90	U15490PN2011PTC141776	समर्थ सेल्युलॉस प्रोडक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
91	U24233PN2002PTC017530	इमिनेंट बओटेक्नॉलॉजिस प्रायव्हेट लिमिटेड
92	U72900PN2009PTC135192	आयआयआय लॅब्स प्रायव्हेट लिमिटेड
93	U27320PN2009PTC135240	स्कायलर्क फॉन्ड्री प्रायव्हेट लिमिटेड
94	U74900PN2010PTC137452	श्री केदारनाथ कंसलटंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
95	U51101PN2010PTC137439	श्री कुंकेश्वर ट्रेडर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
96	U51101PN2010PTC137438	तुलजा भवनी ट्रेडर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
97	U74900PN2010PTC137440	श्री समर्थ कंसल्टिंग सॉल्युशंस प्रायव्हेट लिमिटेड
98	U28112PN2010PTC137540	फ़्रिमेंटिक्स इंजिनिअरिंग इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड
99	U72200PN2005PTC020325	मॅगनुस सॉफ्टवेअर कंसलटंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
100	U70200PN2012PTC143305	रेगे डेव्हलपमेंट अण्ड कंस्ट्रक्शंस प्रायव्हेट लिमिटेड
101	U18109PN2010PTC137642	गरवारे अॅप्परेल प्रायव्हेट लिमिटेड
102	U01120PN2009PTC134665	जुई अॅगो प्रायव्हेट लिमिटेड
103	U72200PN2013PTC147594	सेरेरा कंसल्टिंग (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड
104	U45202PN2002PTC016824	महभरत बिल्डर्स अण्ड डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
105	U45200PN2011PTC138407	कुल रिहॅबिलिटेशन कंस्ट्रक्शंस प्रायव्हेट लिमिटेड
106	U45402PN2007PTC129814	विंसॉन रिअलिटिज प्रायव्हेट लिमिटेड
107	U45200PN2009PTC134074	आप डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
108	U85190PN2008PTC133271	सम्पन्ना फॅसिलिटिज अण्ड हॉस्पिटैलिटी प्रायव्हेट लिमिटेड
109	U72200PN2010PTC136827	गारवे टेक्नॉलॉजिस प्रायव्हेट लिमिटेड
110	U01400PN2010PTC137032	पिब्लिआरबि अॅगो प्रोडक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
111	U74900PN2011PTC140790	इओलुस इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड
112	U70101PN2007PTC129957	वैकटचल रिअलिटिज प्रायव्हेट लिमिटेड

क्र.सं.	सी आय एन	कम्पनी का नाम
113	U70101MH1986PTC038545	गितंजलि अपार्टमेंट पीव्हिटि.एलटीडी .
114	U15132PN2009FTC134071	डेल मॉन्टे फ्रेश प्रोड्युस (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड
115	U92100PN2009PTC134402	अल्टैर् अॅनिमेशन अॅण्ड प्रोडक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड
116	U72900PN2007PTC129423	अॅडव्हॉन्स ट्रॅसॅक्ट सॉल्युशनस प्रायव्हेट लिमिटेड
117	U74994PN2001PTC015714	सव्व्यडेकोर्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड
118	U45200PN2011PTC139643	इंकेन बिल्डिंकॉन प्रायव्हेट लिमिटेड
119	U15549PN2004PTC019283	बलघट बेवेरॅजेस प्रायव्हेट लिमिटेड

शामराव दत्तात्रय पाटील
सहायक कंपनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

SUPREME COURT OF INDIA

New Delhi, the 5th January 2015

No. F. 20/2015-SCA(I)—Hon'ble the Chief Justice of India has been pleased to appoint Shri M.V. Ramesh, I Additional Special Judge for CBI Cases, Hyderabad as Registrar, Supreme Court of India, on deputation basis, initially for a period of one year with effect from the forenoon of 5th January, 2015.

M.K.HANJURA
Registrar (Admn.I)

The 6th January 2015

No. F.20/2015/SCA(1)—Shri Vijay Kumar Nigam, Additional Registrar has retired from the service of the Registry of the Supreme Court of India with effect from the afternoon of December 31, 2014 on his attaining the age of superannuation.

M.K.HANJURA
Registrar (Admn.I)

New Delhi, the 5th January 2015

No. F.20/2015/SCA(1)—Shri Rajendra Prasad, Editor, Supreme Court Reports has retired from the service of the Registry of the Supreme Court of India with effect from the afternoon of December 31, 2014 on his attaining the age of superannuation.

BADR-UL-ISLAM
Deputy Registrar (Admn.I)

The 6th January 2015

No. F.20/2015/SCA(1)—Shri Vijay Dhawan, Assistant Registrar has retired from the service of the Registry of the Supreme Court of India with effect from the afternoon of December 31, 2014 on his attaining the age of superannuation.

BADR-UL-ISLAM
Deputy Registrar (Admn.I)

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

OFFICE OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA,

New Delhi – 110124, the 18th December 2014

No. 5296 - GE-I/13-2006—Ms. Kaushalya Sabhnani, Senior Principal Private Secretary has retired on superannuation from Government service wef. 30.11.2014 (AN)

SUDHA RAJAN
Asstt. Comptr. &
Auditor General(P)

No. 5293 - GE-I/13-2006—The following IA&AS officer have retired on superannuation from Government service from the date shown against their names :

Sl. No.	Name of the officer and Designation S/Shri/Ms.	Date of Retirement
1.	R. Sridhara, Director (Report), O/o Pr. Director of Comml. Audit and Ex-officio Member, Audit Board, Bengaluru	30.11.2014 (AN)
2.	Ms. Pushpa Devi, Sr. Dy. Accountant General (Works), O/o Accountant General (Audit), Jammu & Kashmir, Srinagar at Br. - Jammu	30.11.2014 (AN)

SUDHA RAJAN
Asstt. Comptr. &
Auditor General(P)

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (GENERAL & SOCIAL SECTOR AUDIT), RAJASTHAN

Jaipur, the 2nd January 2015

No. Admn.-II/Gazette Notification/R-12063/122/2014—The following Group 'B' Gazetted Officers retired on superannuation from Government service from the date shown against their name:

S/Shri

1. Babu Lal Gupta
Senior Audit Officer Retired on superannuation wef. 31.12.2014 (AN)
2. Padam Chand Gandhi
Senior Audit Officer Retired on superannuation wef. 31.12.2014 (AN)

Sd/- ILLEGIBLE
Dy. Accountant General (Admn.)

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (ECONOMIC & REVENUE SECTOR AUDIT), RAJASTHAN

Jaipur, the 2nd January 2015

No. Admn.-II/Gazette Notification/R-12063/60/2014—The following Group 'B' Gazetted Officers retired on superannuation from Government service from the date shown against their name:

S/Shri

1. Har Charan Singh Dua
Senior Audit Officer Retired on superannuation wef. 31.12.2014 (AN)
2. Rattan Lal Bhat
Senior Audit Officer (Com.) Retired on superannuation wef. 31.12.2014 (AN)

Sd/- ILLEGIBLE
Dy. Accountant General (Admn.)

BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE

Mumbai-85, the 5th January 2015

No. PD/4(4)/2014-R-III/2015/139—Head, P&CD, Bhabha Atomic Research Centre appoints Shri Natarajan Srinivasan, Private Secretary(Non-Secretariat) to the post of Senior Private Secretary on regular basis with effect from the forenoon of 17.10.2014 in the Pay Band-2 of ₹ 9300-34800 + Grade Pay ₹ 4800/- in this Research Centre until further orders.

MUTHULAKSHMI J.
Assistant Personnel Officer

The 6th January 2015

No. PD/4(6)/2007-R-III/(Vol.II)2015/161—Head, P&CD, Bhabha Atomic Research Centre appoints Smt. Radhalakshmi Jayaraman, Stenographer Grade-I to the post of Private Secretary(Non-Secretariat) on regular basis with effect from forenoon of 01.12.2014 in the Pay Band-2 of ₹ 9300-34800 + Grade Pay ₹ 4600/- in this Research Centre until further orders.

MUTHULAKSHMI J.
Assistant Personnel Officer

No. PD/4(6)/2007-R-III/(Vol.II)2015/163—Head, P&CD, Bhabha Atomic Research Centre appoints Shri Kuppaswamy Sethuraman, Stenographer Grade-I to the post of Private Secretary(Non-Secretariat) on regular basis with effect from forenoon of 01.12.2014 in the Pay Band-2 of ₹ 9300-34800 + Grade Pay ₹ 4600/- in this Research Centre until further orders.

MUTHULAKSHMI J.
Assistant Personnel Officer

No. PD/4(6)/2007-R-III/(Vol.II)2015/165—Head, P&CD, Bhabha Atomic Research Centre appoints Smt. Latha S. Iyer, Stenographer Grade-I to the post of Private Secretary(Non-Secretariat) on regular basis with effect from forenoon of 01.12.2014 in the Pay Band-2 of ₹ 9300-34800 + Grade Pay ₹ 4600/- in this Research Centre until further orders.

MUTHULAKSHMI J.
Assistant Personnel Officer

No. PD/4(6)/2007-R-III/(Vol.II)2015/166—Head, P&CD, Bhabha Atomic Research Centre appoints Smt. Parvathi Ganesh, Stenographer Grade-I to the post of Private Secretary(Non-Secretariat) on regular basis with effect from forenoon of 01.12.2014 in the Pay Band-2 of ₹ 9300-34800 + Grade Pay ₹ 4600/- in this Research Centre until further orders.

MUTHULAKSHMI J.
Assistant Personnel Officer

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Mumbai-400001, the 5th January 2015

No. 1/6(4)/2010-Power/140—The President is pleased to appoint the following Scientific Officers/Engineers of this Department who are on permanent deputation to the Nuclear Power Corporation of India Limited (NPCIL) to the grade as mentioned against each and as detailed below in an officiating capacity until further orders.

Sr. No	Name (S/Shri)	Present Grade	Promoted to Grade	Pay Band (Rs.) PB-3	Grade Pay (Rs.)	Unit
1.	P.K. Gupta	SO/E	SO/F	37400-67000	8700	TAPS – 1&2
2.	S. Halder	SO/E	SO/F	37400-67000	8700	TAPS – 1 & 2

2. The officers at Sr. No. 1 & 2 above had relinquished the charge w.e.f. 01.07.2014 (FN) of the lower post held by them.

A. SUKUMARAN
Under Secretary

HEAVY WATER BOARD

Mumbai - 400094, the 24th December 2014

No. HWB/R/1(8)-M/2014/41—Chief Executive, Heavy Water Board appoints Shri K.S.R.C. Murthy, Stenographer Grade.I (Pay Band-2 ₹ 9300-34800 + Grade Pay of ₹ 4600), NFC, Hyderabad to officiate as Assistant Personnel Officer in the Pay Band-2 ₹ 9300-34800 with Grade Pay ₹ 4800/- in Heavy Water Plant (Manuguru) from the forenoon of 21st October, 2014 until further orders.

K.S. PILLAI
Administrative Officer-III

The 7th January 2015

No. HWB/R/4(15)/2014/112—The President is pleased to appoint Shri Javvadi Venkata Siva Rama Krishna, Scientific Assistant/E, Heavy Water Plant (Manuguru) in the pay band of Rs.15600-39100 with Grade Pay of R.5400/- as Technical Officer/C in the same pay band with Grade Pay of Rs. 5400/- with effect from the forenoon of July 1, 2013 in the same plant in a temporary capacity until further orders.

K.S. PILLAI
Administrative Officer-III

DIRECTORATE OF PURCHASE & STORES

Mumbai-400094, the 5th January 2015

No.DPS/11004/Rectt./4985—The Director, Directorate of Purchase & Stores, Department of Atomic Energy appoints Shri S.S. Vedantwar, Assistant Accountant (Pay Band-2 ₹9300-34800 + Grade Pay ₹4600), BARC, Mumbai as

Assistant Accounts Officer in the Pay Band-2 ₹9300-34800 + Grade Pay ₹4800 in the Calcutta Regional Accounts Unit, DPS, Kolkata with effect from the forenoon of 16th December 2014, until further orders.

S.Y. KAMBLE
Administrative Officer-III

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF CIVIL AVIATION

New Delhi – 110 003, the 6th January 2015

No. A-32013/20/2009-E.II—The President is pleased to regularise the period of ad-hoc appointment of Smt. Suvrita Saxena, as Deputy Director of Operations in DGCA w.e.f. 09.02.2014 to 28.09.2014 in the scale of pay PB-3 Rs. 15600-39100 + GP 7600/-

GOPAL SINGH
Deputy Director of Admn.

No. A-32013/04/2013-E.II—The President is pleased to regularise the ad-hoc appointment of Shri Maneesh Kumar, as Director of Air Safety in DGCA from 06.03.2014 to 07.08.2014 in the scale of pay PB-4 Rs. 37400-67000 + GP 8700/-.

GOPAL SINGH
Deputy Director of Admn.

No. A-32013/06/2014-E.II—On the basis of the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Shri G. Rajasekar, presently holding the post of Deputy Director General on ad-hoc basis, as Deputy Director General on regular basis in the Office of the Director General of Civil Aviation, in PB-4 of Rs. 37400-67000 plus Grade Pay of Rs. 8900/- with effect from the forenoon of the 28th November, 2014 and until further orders.

GOPAL SINGH
Deputy Director of Admn.

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

O/o. REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of Companies Act, 1956 and of following companies

Kanpur-208001, the 7th January 2015

No.LC/560(3)/5949—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date the name of the following companies unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved :—

Sl No.	Company Name	CIN NO.	SRN NO.
1	KNACKCARTEL PRIVATE LIMITED	U01403UP2012PTC048935	B95360061
2	AMARAWATI HOUSINGS PRIVATE LIMITED	U45201UP2004PTC029146	C06279541
3	LEVERAGED SHARE TRADERS & BROKERS PRIVATE LIMITED	U65921UP2007PTC032780	C19382647
4	MANI NEWS SERVICES PRIVATE LIMITED	U22100UP2011PTC043537	C32340150
5	VASUNDHRA TELECOM PRIVATE LIMITED	U64200UP2013PTC059944	C33395567
6	RATHORE SECURITY SERVICES PRIVATE LIMITED	U74920UP2008PTC035395	C33958760
7	PRESTIGE COLOURS PRIVATE LIMITED	U24221UP2002PTC026776	C34393942
8	ACCUSYS SALES & MARKETING PRIVATE LIMITED	U52100UP2011PTC047907	C34439166
9	JAI AMBE MARKETING PRIVATE LIMITED	U74999UP2004PTC028831	C34521526
10	SWAROOP INFRASTRUCTURE & DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U45400UP2007PTC033409	C34654012
11	SUN SURFACTANTS PRIVATE LIMITED	U24241UP1999PTC024909	C34946525

Sl No.	Company Name	CIN NO.	SRN NO.
12	MADHUR OILS PRIVATE LIMITED	U15141UP1984PTC006501	C34963124
13	Y P ROLLING MILLS PRIVATE LIMITED	U27100UP2013PTC060355	C34976449
14	ICON BUILDING AND BRIDGE CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED	U45203UP2004PTC028878	C35116417
15	G.L. INFRADEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U70102UP2011PTC046155	C35127885
16	GOPALA SHELTERS PRIVATE LIMITED	U45200UP2006PTC032562	C35367671
17	ACDA CLASSES PRIVATE LIMITED	U80904UP2012PTC048549	C35543826
18	PMD eSERVICES PRIVATE LIMITED	U74120UP2012PTC050804	C35569961
19	SDB CORPORATION PRIVATE LIMITED	U74120UP2012PTC049993	C35618198
20	UDAYAN INFO SERVICE PRIVATE LIMITED	U93030UP2012PTC049161	C35631381
21	VDM DAIRY & ALLIED LIMITED	U15200UP2008PLC036093	C35694108
22	REDEX TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U72300UP2011PTC043931	C35731207
23	SANDEEP HOME APPLIANCES PRIVATE LIMITED	U74900UP2008PTC034514	C35739705
24	BRIGHTSTARS NETMART PRIVATE LIMITED	U93000UP2010PTC039755	C35756642
25	PACE LOGISTICS AND MARKETING PRIVATE LIMITED	U74999UP2006PTC031590	C35874320
26	AIRS STOCK BROKING PRIVATE LIMITED	U74900UP2010PTC042142	C35906080
27	ASSURED VISION MULTITRADE PRIVATE LIMITED	U74900UP2009PTC038808	C35953090
28	KAISER INDIA ALINAMART SERVICES PRIVATE LIMITED	U74120UP2011PTC046748	C35980945
29	TWAKH RETAIL PRIVATE LIMITED	U52100UP2012PTC053638	C35997576
30	VNS INFOSOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U72900UP2008PTC034519	C36083921
31	SAI KRIPA COMMERCIAL SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U74120UP2012PTC049674	C36092385
32	NAVRATAN HOTELS PRIVATE LIMITED	U55204UP2011PTC046716	C36094910
33	SAAHIB HOSPITALITY SERVICES PRIVATE LIMITED	U55204UP2012PTC050233	C36109973
34	PURSHOTTAM CINEMA PRIVATE LIMITED	U32111UP1987PTC008765	C36168961
35	IGV SALES PRIVATE LIMITED	U74120UP2012PTC050791	C36419208
36	ADARSHSITARA REAL ESTATE (INDIA) LIMITED	U70102UP2012PLC051196	C36445138
37	PHRONESIS SOFTWARE & SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U72900UP2007PTC034156	C36459303
38	WEALTH RISE HI-TECH FARMS LIMITED	U01403UP2010PLC040461	C36705218
39	PRASUNCO SOFTECH SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U74120UP2012PTC050955	C36805661
40	YAHWEH PAPER PRODUCTS PRIVATE LIMITED	U21098UP2013PTC055789	C36855153
41	BRIGHTFUTURE ACADEMY PRIVATE LIMITED	U74120UP2012PTC051182	C36863975
42	PARSHAV HOTELS AND RESORTS PRIVATE LIMITED	U55204UP2009PTC039098	C36947711
43	M.A.R.S. TELEACC PRIVATE LIMITED	U29113UP1998PTC023495	C37160868
44	AMBIENT INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED	U74120UP2012PTC049700	C37187465
45	PRATAP MULTITRADE PRIVATE LIMITED	U74120UP2012PTC050296	C37258910
46	ASTER PHARMA PRIVATE LIMITED	U24232UP2005PTC030843	C37611084

S. P. KUMAR
 Registrar of Companies
 UP & Uttarakhand

In the matter of Companies Act, 1956 and of following companies

Kanpur-208001, the 7th January 2015

No.LC/560(5)/6000—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following companies has this day been struck off from the Register of Companies from the date of this publication. These companies shall stand dissolved :—

Sl No.	Company Name	CIN NO.	SRN NO.
1	AZHARI SALES & MARKETING PRIVATE LIMITED	U74120UP2012PTC050202	C28890671
2	NIBH IMPEX PRIVATE LIMITED	U74900UP2010PTC041636	C29994068
3	PACTUS INDIA PRIVATE LIMITED	U85191UP2012PTC049771	C30706592
4	SHREEJI ABHUSHAN PRIVATE LIMITED	U27310UP2010PTC040963	C30808067
5	EXCLUSIVE CONCRETE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U45202UP2014PTC062378	C31197130
6	BUDDHI LAL SONS HOTEL PRIVATE LIMITED	U55204UP2013PTC056344	C31227226
7	SOVIYA SOFTWARE PRIVATE LIMITED	U72300UP2009PTC036674	C31264864
8	MUDRA BUILDTECH PRIVATE LIMITED	U70102UP2012PTC052230	C31297054
9	HICON INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED	U45200UP2007PTC032716	C31425747
10	VIDHYA SOFTECH PRIVATE LIMITED	U11101UP2007PTC034290	C31645500
11	IDRC CONSULTING PRIVATE LIMITED	U74120UP2011PTC047752	C31768930
12	B-POSITIVE MEDICALS PRIVATE LIMITED	U85191UP2010PTC041806	C31783194
13	ASPIRE OUTSOURCING SERVICES PRIVATE LIMITED	U74900UP2010PTC042535	C31799786
14	POWER FINSEC CONSULTANCY PRIVATE LIMITED	U93030UP2012PTC050089	C31912066
15	ADITYA INFRACITY PRIVATE LIMITED	U70102UP2012PTC050169	C32079147
16	SAGE FINCAP CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	U93000UP2008PTC035744	C32081234
17	G.V. SALONS PRIVATE LIMITED	U74120UP2012PTC048406	C32081770
18	PRAYAG PAPER DISTRIBUTORS PRIVATE LIMITED	U51109UP1992PTC014820	C32151342
19	D.S. INFRAPLANNERS PRIVATE LIMITED	U70102UP2013PTC056866	C32194722
20	EZEECHOICE RETAIL PRIVATE LIMITED	U52190UP2014PTC064032	C32599128
21	JMK FROZEN FOODS PRIVATE LIMITED	U15112UP2010PTC039761	C32625535
22	CIRA POWER PRIVATE LIMITED	U40102UP2013PTC056042	C32672701
23	BACHAT BAZZAR RETAILS PRIVATE LIMITED	U52100UP2012PTC050110	C32674129
24	ASR MULTIADVISORY PRIVATE LIMITED	U74900UP2010PTC039174	C32699738
25	ROY'S AIR CONDITIONING PRIVATE LIMITED	U52334UP1987PTC008840	C32703738
26	A L B HEALTHCARE PRIVATE LIMITED	U85110UP2002PTC026786	C32715146
27	J M EXTRUSION PRIVATE LIMITED	U37109UP1982PTC005646	C32753659
28	BIPS NETWORK DATA SYSTEMS PRIVATE LIMITED	U70102UP1997PTC022085	C32690968
29	ARYAN SHOE ACCESSORIES PRIVATE LIMITED	U19201UP2002PTC026804	C32804700
30	EYE TECHWORD SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U74120UP2011PTC043955	C32809618
31	SHITAB CHAND PREM CHAND PRIVATE LIMITED	U51109UP1988PTC010320	C32854374
32	SAAMARTH IT CONSULTANCY PRIVATE LIMITED	U74120UP2011PTC044777	C32854879
33	NANDINI DISTRIBUTORS PRIVATE LIMITED	U24297UP2007PTC033477	C32949687

Sl No.	Company Name	CIN NO.	SRN NO.
34	KHUSHI AGENCIES PRIVATE LIMITED	U74991UP2007PTC033479	C32951204
35	B B S INFRATECH PRIVATE LIMITED	U45400UP2010PTC039776	C32987612
36	KKD PHARMA PRIVATE LIMITED	U24100UP2014PTC061824	C33091604
37	NEW SATKAR SEWA LIMITED	U55101UP2005PLC030063	C33106964
38	ASPIRANT MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED	U74900UP2009PTC037211	C33122995
39	PATHWAY IT CONSULTANCIES PRIVATE LIMITED	U72300UP2013PTC055891	C33166208
40	B K CITYDEVELOPERS & TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U74900UP2010PTC041946	C33221078
41	VALVES N FITTING PRIVATE LIMITED	U29253UP2013PTC057531	C33236761
42	PRASUNCO HOTELS PRIVATE LIMITED	U55101UP2009PTC037790	C33447913
43	IPTM EDUCATION PRIVATE LIMITED	U80904UP2009PTC038439	C33529629
44	NATRAJDEEP BUILDERS PRIVATE LIMITED	U45400UP2012PTC054288	C33607540
45	CRP ENTERPRISES PRIVATE LIMITED	U51300UP2009PTC036874	C33921909
46	PUSHTI SOFTECH PRIVATE LIMITED	U93030UP2013PTC055230	C34029090

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
UP & Uttarakhand

In the matter of Companies Act, 1956/2013 and of the following Companies

Chandigarh, the 31st December 2014

No. ROC/560(5) FTE/2013—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956/2013 that the name of following Companies has this day been struck off from the Register and the said companies are dissolved:-

Sl.No.	Company No.	Name of the Company
1.	16213	HIM Academy Private Limited
2.	30245	Zither Laboratories PVT LTD
3.	30818	Dharampur Health Resorts Private Limited
4.	31673	Raja Hydro Power Private Limited
5.	31687	Kamun Enterprises Private Limited
6.	00111	Toptrack Garments Private Limited
7.	00112	Joyful Steel Fabricators Private Limited
8.	31448	Baddi Innovations And Technologies Private Limited
9.	29536	Beas Projects Private Limited
10.	05030	Modesto Polymers Private Limited
11.	29832	Balaji Embedded Technologies Private Limited
12.	31269	Growin Touch Marketing Private Limited
13.	16155	Globe Resorts Private Limited
14.	31675	Shamshi Hydel Projects Private Limited
15.	31158	Versatile Print & Pack Solutions Private Limited

Sl.No.	Company No.	Name of the Company
16.	30941	Himachal Tools And Training Private Limited
17.	31330	Prashar Constructions Private Limited
18.	00195	Shri Anand Printpack Private Limited
19.	31482	Jai Bhararu Hydel Projects Private Limited
20.	31567	Sethu Hydro Projects Private Limited
21.	27855	Punches N Bunches Foods Private Limited
22.	00002	Sirmour Engineers & Builders Private Limited
23.	30725	Dhuangan Power Private Limited

S.N.TIWARY
Asstt. Registrar of Companies cum Asstt. official Liquidator
Himachal Pradesh

In the matter of Companies Act, 1956 and of following Companies

Pune-4, the 7th January 2015

No. ROCP/FTE/560(5)/2015/3289—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act 1956, that the name of following companies has this day been struck off the Register and the said companies are dissolved :—

1	U74999PN2005PTC021222	THRIVING DESTINATION WEALTH MANAGERS PRIVATE LIMITED
2	U72900PN2008PTC131690	SYLPH IT SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3	U24239PN2011PTC139105	SARLA PHARMA PRIVATE LIMITED
4	U80904PN2011PTC139427	Veracity Interactive Learning Private Limited
5	U74900PN2012PTC144204	PROVANTAGE TRAINING & HR CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
6	U40108PN2012PTC144544	VENUS POWERTECH PRIVATE LIMITED
7	U72200PN2013PTC149116	Suntzu Business Solutions Private Limited
8	U65993MH1995PLC085788	AMRUT KALASHA SAVINGS INVESTMENTS FINANCE LIMITED
9	U45102PN1994PTC082691	MULA VALLEY DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
10	U34300PN2012PTC143482	DUNE TECH PRIVATE LIMITED
11	U74900PN2008PTC132519	Alpha Sapience Consulting and Solutions Private Limited
12	U85110PN1998PTC012590	TELERA HOSPITALITY PRIVATE LIMITED
13	U15543PN2011PTC141026	PAREEK AQUA PRIVATE LIMITED
14	U74900PN2009PTC134582	SHIVNERI MANAGEMENT AND FINANCIAL CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
15	U74900PN2012PTC145315	LIFEEASY ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
16	U29219PN1993PTC072903	CONSOL CONVEYORS & SYSTEMS PRIVATE LIMITED
17	U51909PN2004PTC019444	KIRTI EXIM PRIVATE LIMITED
18	U74999PN2010PTC138107	RIDE CARE ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
19	U61100PN1983PTC029416	PREMCHAND TRANSPORT PVT LTD
20	U51909PN2003PTC017625	SHUB TRADING AND MERCANTILE PRIVATE LIMITED
21	U74110PN2008PTC132944	DIAKAIOS LEGAL SOLUTIONS PRIVATE LIMITED

22	U74900PN2008PTC133092	CAPACE PORTFOLIO MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED
23	U36912PN2013PTC149428	GLOBAL POLYFIBERS PRIVATE LIMITED
24	U99999PN1982PTC027460	PREMCHAND INVESTMENT PVT LTD
25	U74999PN2010PTC135394	GiNi Energy Solutions Private Limited
26	U72900PN2009PTC134116	Sapience IT Solutions Private Limited
27	U74999PN2012PTC142515	Fluent Professional Consultants Private Limited
28	U15490PN2013PLC146696	MASSCORP FOOD PRODUCTS LIMITED
29	U52399PN2013PLC146649	MASSCORP LIFESTYLE PRODUCTS LIMITED
30	U72900PN2010PTC137871	PAC-WEST NETWORK SERVICES PRIVATE LIMITED
31	U74900PN2010PTC136285	SMITA INTERNATIONAL BUSINESS CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED
32	U01404PN2008PTC131978	REAL FRUITS AND FARMS PRIVATE LIMITED
33	U25201PN2001PTC016376	PLASTIKOS POLY PRIVATE LIMITED
34	U29100PN2011PTC139521	MAHALAXMI AUTOCOMPONENTS PRIVATE LIMITED
35	U31108PN2011PTC140031	MAHALAXMI ELECTROPLATE COATING PRIVATE LIMITED
36	U65910PN1992PLC069256	SHAMON LEASING LTD
37	U18101PN2004PTC019265	Invention Textiles Private Limited
38	U63040PN2007PTC130388	FLYHIGH MARKETING PRIVATE LIMITED
39	U27204MH1970PTC014579	KOLHAPUR METAL WORKS AND ROLLING MILLS PVT LTD
40	U45200PN2009PTC134881	KALIKA INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED
41	U72200PN2006PTC128376	BENELEC INFOTECH SERVICES PRIVATE LIMITED
42	U72300PN2008PTC131861	Thinkingspace Technologies Private Limited
43	U85120PN1998PTC012720	PHOENIX ADVANCED ENDOSCOPY CENTRE PRIVATE LIMITED
44	U24299PN2006PTC022051	ARTUS SOFTWARE PRIVATE LIMITED
45	U31909PN2006PTC128724	MULTIVERSITY ECOSYS PRIVATE LIMITED
46	U72900PN2011PTC141094	GRAPWARE IT SERVICES PRIVATE LIMITED
47	U72900PN2011PTC138319	Pineapple Innovative Solutions Private Limited
48	U24243MH1989PTC054590	ANANT SURFACTANTS PRIVATE LIMITED
49	U99999MH1996PTC098419	ALOKE SPECIALITY MACHINES AND COMPONENTS PRIVATE LIMITED
50	U27310PN2007PTC129978	RC WHITE METAL CASTINGS PRIVATE LIMITED
51	U70101PN1997PTC105496	KEBECO HOMES PRIVATE LIMITED
52	U85110PN2003PTC018019	SIDDHIVINAYAK RUGNALAYA KOREGAON PVT. LTD.
53	U65929MH1981PTC024796	SHRI SAPTASHRINGI INVESTMENT PVT LTD
54	U72200PN2009PTC134951	VENUS TELERADIOLOGY AND HEALTHCARE SOLUTION PRIVATE LIMITED
55	U74900PN2005PTC021553	Grandeur Gifts Private Limited
56	U31909PN2008PTC132603	GlowIn Electronics Private Limited.
57	U72900PN2007PTC130149	ROYSUN SYSTEMS PRIVATE LIMITED
58	U28992PN2012PTC142491	DMk Industries Private Limited

59	U01111PN2007PTC130135	SHREE SHIV DATTA AGRO PRODUCTS PRIVATE LIMITED
60	U72400PN2010PTC137495	KONNET INFRA PRIVATE LIMITED
61	U74900PN2007PTC131096	SIMULOGIC ENVIRONMENTAL CONSULTING PRIVATE LIMITED
62	U63022PN2002PTC017465	KANHAIYA COLD STORAGE AND AGRO PROCESSORS PRIVATE LIMITED
63	U72900PN2010PTC136278	NINE MINDS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
64	U36100PN2011PTC141085	DURAWOOD PARTICLE BOARDS PRIVATE LIMITED
65	U01122PN2010PTC137829	AJK AGRO FOODS PRIVATE LIMITED
66	U01400PN2010PTC137828	ADHI AGRO FOODS PRIVATE LIMITED
67	U01122PN2010PTC137833	ARN AGRO FOODS PRIVATE LIMITED
68	U01122PN2009PTC134338	ARNAV AGRO PROCESSING PRIVATE LIMITED
69	U01122PN2009PTC134337	ARNAV AGRO SERVICES PRIVATE LIMITED
70	U29197PN2008PTC131848	NEWLEAF ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
71	U25209PN1984PTC031824	SHIV POLYMERS PVT LTD
72	U01110PN2009PTC134288	R. N. AGRO PROCESSING PRIVATE LIMITED
73	U01110PN2009PTC134290	R. N. AGRO SERVICES PRIVATE LIMITED
74	U72200PN1999PTC013975	RAJ INFOTECH (INDIA) PRIVATE LIMITED
75	U74900PN2012PTC143302	LOKMANYA MEDICAL STORES PRIVATE LIMITED
76	U45200PN2007PTC131102	MRUGAJA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
77	U36931PN2011PTC140323	AGARWALS PORCELAIN PRIVATE LIMITED
78	U70200PN2013PTC149819	UNOTERRA GLOBAL BUSINESS PARKS PRIVATE LIMITED
79	U51909PN2012PTC145066	INDITECH MEDICAL SYSTEMS PRIVATE LIMITED
80	U72900PN2006PTC022050	COGNOSCENTE NETWORK SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
81	U73100PN2001PTC015810	AYUR INFORMATICS AND RESEARCH PRIVATE LIMITED
82	U01117PN2004PTC018895	SATARA KISAN AGRO PRIVATE LIMITED
83	U36900PN2013PTC146594	ARIADNE HOME DECO PRIVATE LIMITED
84	U74999PN2006PTC128919	HAPPY DEALS FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
85	U45200PN2009PTC133687	SIDRAM BUILDERS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
86	U51909PN2010PTC136416	SASHA MARKETERS PRIVATE LIMITED
87	U74300PN2007PTC130937	TOS ONLINE STUDIO PRIVATE LIMITED
88	U01122PN2008PTC132709	SURYODAY FARMFRESH PRIVATE LIMITED
89	U51909PN2006PTC022208	ATISHA TRADING PRIVATE LIMITED
90	U15490PN2011PTC141776	SAMARTH CELLULOSE PRODUCTS PRIVATE LIMITED
91	U24233PN2002PTC017530	EMINENT BIOTECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
92	U72900PN2009PTC135192	iii Labs Private Limited
93	U27320PN2009PTC135240	SKYLARK FOUNDRY PRIVATE LIMITED
94	U74900PN2010PTC137452	SHREE KEDARNATH CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
95	U51101PN2010PTC137439	SHRI KUNKESHWAR TRADERS PRIVATE LIMITED
96	U51101PN2010PTC137438	TULJA BHAVANI TRADERS PRIVATE LIMITED

97	U74900PN2010PTC137440	SHREE SAMARTH CONSULTANCIES PRIVATE LIMITED
98	U28112PN2010PTC137540	FABRIMATIC ENGINEERING INDIA PRIVATE LIMITED
99	U72200PN2005PTC020325	MAGNUS SOFTWARE CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
100	U70200PN2012PTC143305	Rege Development & Construction Private Limited
101	U18109PN2010PTC137642	Garware Apparel Private Limited
102	U01120PN2009PTC134665	JUEE AGRO PRIVATE LIMITED
103	U72200PN2013PTC147594	SERERRA CONSULTING (INDIA) PRIVATE LIMITED
104	U45202PN2002PTC016824	MAHABHARAT BUILDERS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
105	U45200PN2011PTC138407	KUL Rehabilitation Construction Private Limited
106	U45402PN2007PTC129814	Vinson Realities Private Limited
107	U45200PN2009PTC134074	AAP DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
108	U85190PN2008PTC133271	SAMPANNA FACILITIES AND HOSPITALITY PRIVATE LIMITED
109	U72200PN2010PTC136827	GARVE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
110	U01400PN2010PTC137032	PVRB AGRO PRODUCTS PRIVATE LIMITED
111	U74900PN2011PTC140790	AEOLUS INDIA PRIVATE LIMITED
112	U70101PN2007PTC129957	VENKATACHAL REALITIES PRIVATE LIMITED
113	U70101MH1986PTC038545	GITANJALI APARTMENTS PVT LTD
114	U15132PN2009FTC134071	Del Monte Fresh Produce (India) Private Limited
115	U92100PN2009PTC134402	ALTAIR ANIMATIONS & PRODUCTION PRIVATE LIMITED
116	U72900PN2007PTC129423	ADVANCED TRANSACT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
117	U74994PN2001PTC015714	SAVVYDECORS INDIA PRIVATE LIMITED
118	U45200PN2011PTC139643	INCAN BUILDCON PRIVATE LIMITED
119	U15549PN2004PTC019283	BALAGHAT BEVERAGES PRIVATE LIMITED

S.D.PATIL
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2015
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.
FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2015

www.dop.nic.in